

प्रेस नोट:- थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद दिनांक 19-04-2021

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह के अन्तर्गत थाना सिरसागंज पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रकरण में वांछित अभियुक्त किशोर कुमार उर्फ ठकुरी को मय आलाकत्ल अवैध असलाह बरामद सहित किया गिरफ्तार ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सिरसागंज के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक सिरसागंज गिरीशचन्द्र गौतम मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर नगला राधे मोड से शिकोहाबाद की तरफ NH-2 से अभियुक्त किशोर कुमार उर्फ ठकुरी पुत्र सोहनलाल को गिरफ्तार किया गया । तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा व एक खोखा कारतूस बरामद किया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना सिरसागंज पर मु0अ0सं0 201/2021 धारा 302 , 323 भादवि व मु0अ0स0 213/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत है ।

अभियुक्त किशोर कुमार उर्फ ठकुरी ने पूछताछ में हत्या करने की घटना स्वीकार की और घटना के बारे में बताया कि मैं पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था उसी समय मेरे लडका एवं लडकी विरोध करने लगे तथा मेरे बडे बेटे हेमन्त ने मेरे हाथ पकड लिए ये बात मुझे बहुत बुरी लगी और मैंने अपनी पेन्ट की आंटी से तमन्चा निकाल कर हेमन्त को गोली मार दी और हेमन्त ने जमीन पर बैठने की कोशिश की तो गोली उसके सिर मे लग गयी । हेमन्त के गोली लगते ही मैं मौके से भाग गया था । गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. किशोर कुमार उर्फ ठकुरी उम्र करीब 49 वर्ष पुत्र सोहनलाल निवासी दरिगापुर भारौल थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद ।

बरामदगी:-

1. एक अदद अवैध तमंचा ।
2. एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर (आलाकत्ल) ।

अभियुक्त किशोर कुमार उर्फ ठकुरी का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 201/2021 धारा 302/323 भादवि थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद ।
2. मु0अ0स0 213/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद ।
3. मु0अ0स0 280/2000 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. एसएचओ श्री गिरीशचन्द्र गौतम थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद ।
2. उ0नि0 श्री रनवीर सिंह थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद ।
3. का0 952 रामजीलाल थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद ।
4. का.1321 परमानन्द थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद ।